



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1103]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2003/अग्रहायण 19, 1925

No. 1103]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2003/AGRAHAYANA 19, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)

सार्वजनिक नोटिस

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1411(अ).—भवन उपनियम, 1983 में केन्द्र सरकार का निम्नलिखित जिन संशोधनों/उपांतरणों का प्रस्ताव है उन्हें एतद्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव को लिखित में अवर सचिव, दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को इस नोटिस के तारीख के 30 दिन के भीतर भेज सकता है। आपत्ति अथवा सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम व पता भी दे।

उपांतरण :

भवन उपनियम, 1983 के खण्ड 6.8 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :—

“भवन निर्माण अनुमति के जरिए एक बार स्वीकार कर लिए जाने पर स्वीकृति, रिहायशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक भवनों तथा बड़े परिसरों और बहुमंजिला इमारतों और खंड 2.54.2, 2.54.3 और 2.54.4 के तहत वर्गीकृत भवनों के लिए स्वीकृति की तारीख से, पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भवन निर्माण अनुमति को पुनः वैध कराया जाएगा। पुनर्वैधीकरण क्षेत्र के लिए तत्समय लागू मास्टर जोनल प्लान विनियमनों और भवन उप नियमों के अध्याधीन होगा।”

[फा. सं. के-12016/4/2003-डीडी 1 बी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND
POVERTY ALLEVIATION

(Delhi Division)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th December, 2003

S.O. 1411(E).—The following amendments/modifications which the Central Government propose to make in the Building Bye-laws, 1983 are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion may send the same in writing to the Under Secretary, Delhi Division, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Nirman Bhavan, New Delhi 110011 within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modification :

Clause 6.8 of the Building Byelaws, 1983 is revised as under :—

“The sanction once accepted through building permit shall remain valid for five years from the date of sanction for the residential, industrial, commercial buildings as well as larger complexes and multi-storeyed buildings, and such building as classified under clause 2.54.2, 2.54.3 and 2.54.4. The building permit shall be got revalidated before the expiry of this period. Revalidation shall be subject to the Master Zonal Plan Regulations and Building Bye-laws, then in force, for the area”.

[F.No. K-12016/4/2003-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.